



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
An International Bank

पत्रा संख्या / Deposit Confirmation Advice

AVINASH KUMAR SINGH

S O RAMJEE SINGH
WARD NO 35 BABU GANJ
821307
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No

35570300008296

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No

FDR1002233929

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No

AAC000370

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c

35570200000492

शाखा का नाम/Branch Name

DEHRI ONSONE

योजना / Scheme

FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination

Y

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

10022023

पैन नंबर / PAN No.

CJVPS7407P

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है) /

Guardian Name

(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked

Y

जमा राशि /
Deposit Amount

203000

जारी करने की तिथि /
Date of Issue

10-02-2023

व्याज दर /
Rate of Interest

6.25

जमा की अवधि /
Tenure of Deposit

60 Months 0 Days

परिपक्वता तिथि /
Maturity Date

10-02-2028

परिपक्वता मूल्य /
Maturity Value*

276798

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।
 - स्वतः नवीकरण क्लॉज।
 - यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दैनिक तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
 - कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दैनिक तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।
 - फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं।
 - निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।
 - फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) में ही स्वीकार किए जाएंगे।
 - परिपक्वता आहरण क्लॉज।
 - 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांडे रेट से 1% कम।
 - 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांडे रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।
- Rate of Interest is in percentage per annum.
 - Automatic Renewal Clause
 - For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
 - For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
 - Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
 - A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
 - Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
 - Premature Withdrawal Clause
 - Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
 - Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Pledge to E-G RWD works Division Dabhi

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



AVINASH KUMAR SINGH

S O RAMJEE SINGH
WARD NO 35 BABU GANJ
821307
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 35570300008298
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1002234011
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No AAC000370
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 35570200000492
शाखा का नाम/Branch Name DEHRI ONSONE

योजना / Scheme SHORT DEPOSIT (RES)

नामांकन / Nomination Y

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No. 10022023

पैन नंबर / PAN No. CJVPS7407P

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked Y

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
2733000	10-02-2023	4.50	0 Months 60 Days	11-04-2023	2753217


*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।
- स्वतः नवीकरण क्लॉज
- यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष से इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
- कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इनकी ही अवधि के लिए किया जाएगा।
- फॉर्म 15 जी और 15 एच तब तक निवारी खातों के लिए है।
- निवारी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा खाते पर कर कटौती की जाएगी।
- फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।
- परिपक्वता आहरण क्लॉज
- 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1% कम।
- 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।
- Rate of Interest is in percentage per annum
- Automatic Renewal Clause
- For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
- Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank
- Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Pledge to E.E RWD works Division Dehri

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



AVINASH KUMAR SINGH

S O RAMJEE SINGH

WARD NO 35 BABU GANJ

821307

INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No

35570300008299

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No

FDR1002234026

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No

AAC000370

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c

35570200000492

शाखा का नाम/Branch Name

DEHRI ONSONE

योजना / Scheme

SHORT DEPOSIT (RES)

नामांकन / Nomination

Y

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

10022023

पैन नंबर / PAN No.

CJVPS7407P

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

SELF

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है) /

Guardian Name

(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked

Y

जमा राशि /
Deposit Amount

2733000

जारी करने की तिथि /
Date of Issue

10-02-2023

ब्याजदर /
Rate of Interest

4.50

जमा की अवधि /
Tenure of Deposit

0 Months 60 Days

परिपक्वता तिथि /
Maturity Date

11-04-2023

परिपक्वता मूल्य /
Maturity Value*

2753217

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।

1. Rate of Interest is in percentage per annum.

2. स्वतः नवीकरण क्लॉज

2. Automatic Renewal Clause

i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दिये तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दिये तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा खाते पर कर कटौती की जाएगी।

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)

6. परिपक्वता आहरण क्लॉज

6. Premature Withdrawal Clause

i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी (व्यय) अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांडे रेट से 1% कम।


i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.

ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी (व्यय) अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांडे रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।

ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Pledge to E-E R.W.D works Division Dehri

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



AVINASH KUMAR SINGH

S O RAMJEE SINGH
WARD NO 35 BABU GANJ
821307
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 35570300007972

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1010223157

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No AAC000370

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 35570200000492

शाखा का नाम/Branch Name DEHRI ONSONE

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination Y

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No. 10

पैन नंबर / PAN No. CJVPS7407P

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

*Pledge to EE RWD work
Dinam Dem.*


अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है)

Guardian Name

(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked N



जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
339000	10-10-2022	5.50	12 Months 0 Days	10-10-2023	358033

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है
4. निवासी व्यक्ति को द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक सप्ताह 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज
7. 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांटे रेट से 1% कम
8. 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांटे रेट से 1.5% कम 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है
1. Rate of Interest is in percentage per annum
2. Automatic Renewal Clause
3. For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
4. For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
5. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
6. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. Premature Withdrawal Clause
7. Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
8. Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature